

## प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार

देश भर में पांच प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1. कार्यालय समय में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक केंद्रों के माध्यम से दीर्घकालीन प्रशिक्षण।
2. हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर)/हिंदी टंकण (मैनुअल) और हिंदी आशुलिपि का गहन पूर्ण कार्यदिवसीय प्रशिक्षण।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी भाषा एवं हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर)/हिंदी टंकण (मैनुअल) का प्रशिक्षण।
4. अल्पावधि प्रशिक्षण (Validation Courses)। 5 दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर संचालित किए जाते हैं।
5. इंटरनेट के माध्यम से वेब पर लीला प्रबोध, लीला प्रवीण एवं लीला प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का स्वयं शिक्षण।

हिंदी भाषा पाठ्यक्रम, कार्यक्रम एवं उनकी अवधि

	हिंदी शिक्षण योजना (दीर्घकालिक)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (अल्पकालिक) (पूर्ण कार्यदिवसीय)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (दीर्घकालिक) (भाषा पत्राचार)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना (अल्पकालिक /Validation Courses)*
प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ
अवधि	05 माह	25, 20, 15, 20 पूर्ण कार्यदिवसीय	01 वर्ष (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए)	05 पूर्ण कार्यदिवसीय (कक्षा में पढ़ाई के)
सत्र	वर्ष में 02 सत्र (i) जनवरी - मई (ii) जुलाई - नवंबर	वर्ष में 03 सत्र (i) जनवरी - मार्च (ii) मई - जुलाई (iii) सितंबर - नवंबर	वर्ष में 01 सत्र जुलाई - मई	वर्ष में 02 सत्र (i) जनवरी - मई (ii) जुलाई - नवंबर (ऑनलाइन प्रशिक्षण लीला के माध्यम से)

\* हिंदी भाषा के लिए "05 दिवसीय : (कक्षा में पढ़ाई के) अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम" उपयोगकर्ता कार्यालय की मांग पर इनहाउस एवं आउटरीच माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम, कार्यक्रम एवं उनकी अवधि

पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम	हिंदी शिक्षण योजना (दीर्घकालिक)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (अल्पकालिक)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (अल्प अवधि/Validation Course)*	पत्राचार पाठ्यक्रम
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	अवधि 2 माह प्रतिदिन 3 घंटे (अपराह्न) वर्ष में 6 सत्र (i)फरवरी-मार्च (ii)अप्रैल-मई (iii)जून-जुलाई (iv)अगस्त-सितंबर (v)अक्तूबर-नवंबर (vi)दिसंबर-जनवरी	अवधि 40 पूर्ण कार्य दिवस वर्ष में 5 सत्र  जनवरी से मार्च मार्च से मई जून से जुलाई अगस्त से अक्तूबर अक्तूबर से दिसंबर	5 पूर्ण कार्य दिवस	अवधि 6 माह वर्ष में दो सत्र  फरवरी से जुलाई तथा अगस्त से जनवरी
हिंदी आशुलिपि	अवधि 4 माह प्रतिदिन 3 घंटे (पूर्वाह्न) वर्ष में 3 सत्र (i)फरवरी-मई (ii)जून-सितंबर (iii)अक्तूबर-जनवरी	अवधि 80 पूर्ण कार्य दिवस  वर्ष में 2 सत्र जनवरी से मई अगस्त से दिसंबर	--	--
* हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के लिए 5 दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर संचालित किए जाते हैं।				

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिंदी कार्यशालाएँ	अवधि 5 पूर्ण कार्यदिवस
अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अवधि 5 पूर्ण कार्यदिवस
पुनश्चर्या कार्यक्रम	अवधि 5 पूर्ण कार्यदिवस
प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि 5 पूर्ण कार्यदिवस